



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1161]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 12, 2016/वैशाख 22, 1938

No. 1161]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 2016/ VAISAKHA 22, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2016

का.आ.1730(अ).- केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के 245.000 कि.मी. से 260.100 कि.मी. तक के भूखण्ड (गोमती चौराहा से उदयपुर सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप प्रभागीय अधिकारी, गिर्वा, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के 245.000 कि.मी. से 260.100 कि.मी. (गोमती चौराहा से उदयपुर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	mn; ij	%1% fxjok	%1% f'koijh	4571	निजी	प.सा.तृतीय	0.0600
				4438	निजी	प.सा.तृतीय	0.0400
				;kx			0.1000
			%2% vEcjh	1267	निजी	भु.बी.	0.2460
				1232	निजी	उद्योग	0.0100
				;kx			0.2560
				egk; kx			0.3560

[फा.सं. भाराप्रा / 15022 / 2 / 2011—आरओजे / एलए / जीयू]

राजेश गुप्ता, उपसचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2016

S.O. 1730(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said act.) the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule below, is required for building (widening / four-laning, etc.) maintenance, management and operation of National Highway No. 08 in the stretch of land from km. 245.000 to 260.100 (Gomati Chouraha to Udaipur Section) in the District of Udaipur in the State of Rajasthan hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely the Sub Divisional Officer, Girwa in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 245.00 to Km. 260.100 (Gomati Choraha to Udaipur section) of the National Highway No. 8 in the State of Rajasthan.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey numbear	Type of Land	Nature of land	Area in hactares
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Udaipur	(1) Girva	(1) Shivpuri	4571	Private	P.Sa. III	0.0600
				4438	Private	P.Sa. III	0.0400
				Total			0.1000
		(2) Amberi	(2) Amberi	1267	Private	Bhu.Bi.	0.2460
				1232	Private	Industrial	0.0100
				Total			0.2560
				G. Total			0.3560

[F.No. NHAI/15022/2/2011-ROJ/LA/GU]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.